



# सामाजिक विज्ञान

## कक्षा 7

### (इतिहास)

Chapter 1: प्रारंभिक कथन: हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल



To get notes visit our website

[mukutclasses.in](http://mukutclasses.in)

## अभ्यास के प्रश्न

### फिर से याद करें

**प्रश्न 1. अतीत में 'विदेशी' किसे माना जाता था?**

उत्तर: मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति को 'विदेशी' माना जाता था, जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था।

**प्रश्न 2. नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत:**

(क) सन् 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं।

(ख) इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्त्व की स्थापना की।

(ग) कृषि - केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी-कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे।

(घ) सुलतान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था।

उत्तर :

(क) गलत

(ख) सही

(ग) सही

(घ) गलत।

**प्रश्न 3. रिक्त स्थानों को भरें:**

(क) अभिलेखागारों में \_\_\_\_\_ रखे जाते हैं।

(ख) \_\_\_\_\_ चौदहवीं सदी का एक इतिहासकार था।

(ग) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं।

उत्तर:

(क) अभिलेखागारों में **दस्तावेज़ और पांडुलिपियाँ** रखे जाते हैं।

(ख) **जियाउद्दीन बरनी** चौदहवीं सदी का एक इतिहासकार था।

(ग) **आलू, मक्का, मिर्च, चाय** और **काँफी** इस उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं।

**प्रश्न 4. इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की तालिका दें।**

उत्तर: इसकाल में हुए कुछ प्रौद्योगिकीय परिवर्तन निम्न हैं

(i) सिंचाई में रहट, (ii) कताई में चरखे, (iii) युद्ध में आग्नेयास्त्र।

**प्रश्न 5. इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें।**

उत्तर: इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन थे-

1. नए देवी देवताओं की पूजा।
2. राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण।
3. समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्त्व।
4. ईश्वर की कल्पना ईष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई।
5. नए नए धर्मों का आगमन हुआ।

### आइए समझें

**प्रश्न 6. पिछली कई शताब्दियों में 'हिंदुस्तान' शब्द का अर्थ कैसे बदला है?**

उत्तर:

(i) आज हम 'हिन्दुस्तान' आधुनिक राष्ट्र राज्य 'भारत' के अर्थ में लेते हैं।

(ii) तेरहवीं सदी में जब फ़ारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा-यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था।

(iii) सोलहवीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु-पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया।

**प्रश्न 7. जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे?**

उत्तर:

1. अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने-अपने नियम बनाती थीं।
2. इन नियमों का पालन जाति के बड़े-बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी जिसे कुछ इलाकों में 'जाति पंचायत' कहा जाता था।
3. लेकिन जातियों को अपने निवास के गाँवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था।

**प्रश्न 8. सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं?**

उत्तर: चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य कहलाते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे।

**आइए विचार करें****प्रश्न 9. पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन-कौन सी समस्याएँ आती हैं?**

उत्तर: समस्याएँ निम्न हैं -

- (i) उस समय छपाई न होने के कारण पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी। इससे दूसरे की लिखावट समझना कठिन था।
- (ii) बार बार पांडुलिपियों की नक़ल करके लिखने से फेरबदल होता रहता था।
- (iii) अंतिम पांडुलिपि मूल प्रति से भिन्न हो जाती थी।

**प्रश्न 10. इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है?**

उत्तर: इतिहासकार अतीत को समान विशेषता रखने वाले कालखंडों युगों में विभाजित कर देते थे। इस कार्य में उनके सामने कई कठिनाइयाँ आती थी।

**आइए करके देखें****प्रश्न 11. अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 अथवा मानचित्र 2 की तुलना उपमहाद्वीप के आज के मानचित्र से करें। तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएँ और असमानताएँ मिलती हैं, उनकी सूची बनाइए।**

उत्तर:

समानताएं:- तटीय ब्यौरा समान है। कुछ जानकारी समान है जैसे उत्तर प्रदेश।

असमानताएं:- बहुत से स्थानों के नाम परिवर्तन। दिशाओं का सही आभास नहीं होता है।

**प्रश्न 12. पता लगाइए कि आपके गाँव या शहर में अभिलेख (रिकॉर्ड) कहाँ रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज़ संग्रहित हैं? उनका उपयोग कौन लोग करते हैं?**

उत्तर: हमारे गाँव व शहर के अभिलेख जिले के रिकॉर्ड रूम में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को संबंधित विभाग के अधिकारी तैयार करते हैं। हाँ हमारे यहाँ एक अभिलेखागार है। उसकी देखभाल जिला प्रशासन करता है। यहाँ भूमि, जनसंख्या, वनों व अन्य कई तरह के दस्तावेज़ संग्रहित हैं। उनका उपयोग सरकार करती है।